### SHREE WORSTEX LIMITED

Regd. Off: 325, HIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085

Mob. : 9315202833, Email id: shreeworstex@gmail.com

Website: www.shreeworstex.in. CIN: L17111DL1982PLC013790

28th May, 2022

Department of Corporate Relations	Metropolitan Stock Exchange of India Limited
BSE Limited	(Formerly Known as MCX Stock Exchange Limited)
P. J. Towers,	4 <sup>th</sup> Floor, Vibgyor Towers,
Dalal Street, Fort	Bandra Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai-400 001	Mumbai – 400 098
Security Code: 541358	Symbol: SHWL

Sub: Submission of newspaper of Audited Financial results(AFR) for the quarter and year ended 31st March, 2022

Dear Sir/Madam.

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation ,2015, we are enclosing herewith the Newspaper clipping of the Audited Financial Results(AFR) for the quarter and year ended 31st March, 2022 which was approved by the Board of Directors in their meeting held on 26.05.2022 and duly reviewed by the Audit Committee in its meeting held on 26.05.2022 published in the "Financial Express"(All edition) and "Jansatta" newspaper on 28.05.2022.

You are requested to take this information on record.

Thanking You, Yours truly

For Shree Worstex LimitedORSTE

Pawan Kumar Mittal

(Director) DIN:00749265 **FINANCIAL EXPRESS** 

### FUNDS TO BE USED TO REPAY DEBT

# India Cements plans to monetise land parcels

SAJAN C KUMAR Chennai, May 27

CHENNAI-BASED CEMENT manufacturer India Cements on Friday announced its decision to monetise its land assets in a bid to repay debt and for the purpose of capital expenditure. The company has an outstanding debt of ₹3,000 crore in its books as of March 31,2022.

It owns around 26,000 acres and has set up an internal group to oversee the monetisation process. Some of the funds generated through land sales will be used to upgrade its older plants.

N Srinivasan, vice-chairman & MD, India Cements, told a select group of media persons that the sale of land will be done at the right price only. "I have 26,000 acres of land. I am not a distressed seller. I have appointed a team of experts to decide. The amount will be used to repay the debts and make some improvements in its plants," he said.

Last fiscal year, the company repaid ₹551 crore and this year it planned to repay ₹500 crore. There would be no change in its planned capex, he said, adding, "I may be selling the land to the extent of my requirement only. We have lands in city, out of the city and in rural areas."

India Cements will resort to price increases in three stages next month in a bid to stay afloat. "My OPC/PPC mix also changed, affecting the cost of production. My cost went up. To compensate the cost increase, I have decided to increase the price per bag on June 1, June 15 and July 1 by ₹20, ₹15 and ₹20, respec-

**Particulars** 

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax. Exceptional and/or Extraordinary items#)

Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)

Total Comprehensive Income for the period

and other Comprehensive Income (after tax)]

Equity share capital (face value of Rs.10)

Balance sheet of Previous Accounting year

(for continuing and discontinued operations)

Website of the Company i.e. (www.shreeworstex.com).

Earnings Per Share (of Rs.10/- each)

Basic (Rs.)

Diluted (Rs.)

Date: 26.05.2022

Place: New Delhi


[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)

Reserve (excluding Revaluation Reserves) as per

approved by the Board of Directors at their Meeting held on the 26th May, 2022.

Total Income from Operations

SI. No.



■ The company owns around 26,000 acres and has set up an internal group to oversee the monetisation process

■ It has an outstanding debt of ₹3,000 crore in its books as of March 31, 2022

■ Funds will also be used to upgrade some older plants

### Company posts ₹24-cr loss in Q4 due to hike in coal prices

INDIA CEMENTS HAS reported a net loss of ₹24 crore for the fourth quarter ended March 2022 as against a profit of ₹72 crore in the corresponding yearago period due to almost five-fold increase in coal prices and loss of volume.

"Fourth quarter was a disappointing as well as a fighting quarter. Coal, which we were importing, went up from \$60 per tonne to almost \$300 per tonne.We could do nothing but sit and watch. I wanted to increase the price, but it was not possible," said N

Srinivasan, vice-chairman and managing director. The sales volume in the

South was impacted by the pandemic and unseasonsal rainfall. During the period under review, revenue from operations contracted 4% to ₹1,392 crore from ₹1,450 crore. India Cements sold 26.29 lakh tonne of cement (against 26.66 lakh tonne in the same quarter last year) and 0.28 lakh tonne of clinker (against 3.24 lakh tonne in the corresponding period last year).

-FE BUREAU

(Rs. in Lakhs)

104.61

53.93

53.93

48.40

159.22

314.00

99.81

1.54

1.54

Year Ended

01.04.2021 01.04.2020

31.03.2022 31.03.2021

228.18

123.56

123.56

105.48

(47.83)

314.00

259.03

3.36

3.36

SHREE WORTEX LIMITED

Pawan Kumar Mittal

(Director)

DIN: 00749265

tively. Whether others will support me or increase the price, it is remained to be seen," he said. According to Srinivasan, the average price

SHREE WORSTEX LIMITED

(CIN: L17111DL1982PLC013790) Regd Office: 325, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi - 110085 Website: www.shreeeworstex.in | Email: shreeworstex@gmail.com | Mob.: 9315202833 EXTRACTS OF THE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE **QUARTER AND YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2022** 

31.03.2022

(67.04)

(67.04)

(54.66)

(57.88)

314.00

259.03

(1.74)

(1.74)

. The above audited financial results for the quarter ended 31st March, 2022 have been reviewed by the Audit Committee and then

The Above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of these financial results are available on the website of Stock Exchange(s) i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in), BSE Limited (www.bseindia.com) and

7.32

Quarter Ended

01.01.2022 | 01.10.2021 | 01.01.2021

31.12.2021

31.94

9.56

9.56

7.04

7.04

314.00

259.03

0.22

0.22

31.03.2021

44.60

10.70

10.70

7.50

65.75

314.00

99.81

0.24

0.24

For and on behalf of board of directors of

from ₹320 to ₹400 a bag.

panies in the South were operating at 40-50% capacity.

of cement in the South ranged

He said most cement com-

### Adani Defence to acquire 50% stake in drone firm

**FE BUREAU** Mumbai, May 27

**ADANI DEFENCE SYSTEMS** and Technologies, a whollyowned subsidiary of Adani Enterprises, has signed definitive agreement to acquire a 50% stake in Bengaluru-based General Aeronautics in a cash deal. General Aeronautics provides robotic drones and drone-based solutions for crop protection services, crop health, precision farming and yield monitoring using Artificial Intelligence (AI) and analytics for the agricultural sector, the company said in a statement.

The financial details of the transaction were not immediately disclosed.

"The cross-industry application of drones is nearly limitless and continues to make great strides. It offers countries like ours the opportunity to leapfrog generations of infrastructure, healthcare, logistics, agriculture and defence advancements and break several process barriers. When combined with next generation imaging technologies, longer battery life, edge based artificial intelligence and machine learning capabilities, the possibilities are endless," said Adani Defence & Aerospace chief executive officer Ashish Rajvanshi said.

The drone and drone services market in India is expected to grow rapidly to reach ₹30,000 crore by 2026.

# JSW Steel net shrinks 20% to ₹3,343 cr

Report card

% change

Revenue\*

Ebitda

Consolidated figures

\*Revenue from operations

(₹ cr) Q4FY21 Q4FY22

Ebitda Net profit

**FE BUREAU** Mumbai, May 27

JSW STEEL'S CONSOLI-**DATED** net profit declined over 20% on a year-on-year basis to ₹3,343 crore, missing the Street's estimates ₹4,558.20 crore for the quarter ended March 31, 2022, due to an exceptional item of ₹741 crore primarily towards impairment in its US subsidiary. "A subsidiary in USA

received a final arbitration

order on its dispute with the lessors of coking coal mining lease and plant lease and a consequential notice of termination of lease. Accordingly, an impairment provision of ₹710 crore is recorded towards the value of property, plant & equipment, goodwill, other assets and accrual of resultant liabilities. Further, the company has recognised a provision of ₹31 crore towards impairment of capital work in progress at Ranchi, Jharkhand based on assessment of the recoverable value. The same is disclosed as an exceptional



achieved an average capacity utilisation of 98% for Q4

■ Inflation and sharp rise in energy prices impacted the Ebitda margins

item," company said in notes to

environment in India led to a

However, a steady demand

the profit and loss account.

74% y-o-y increase in the company's revenue from operations to ₹46,895 crore. "The domestic steel indusment's continued focus on public infrastructure. Invest-

ments in the construction and infrastructure sector continued to support steel consumption. Hence the steel industry witnessed an increase in finished steel consumption by

On the back of this strong demand environment, the company achieved an average capacity utilisation of 98% for the March quarter versus 94% in the quarter ended December 2022 from the existing standalone operations, and further supplemented by ramp-up of the Dolvi phase-II expansion.

However, inflation exacerbated by the sharp rise in energy prices impacted the Ebitda margins (earnings before interest, tax, depreciation and amortisation) during the quarter, which declined sharply by 1,170 basis points on a y-o-y basis to 19.6% in the quarter ended March 31, 2022. The Ebitda during the quarter rose about 9% y-o-y to ₹9,184 crore. The company's consolidated saleable steel sales for the quarter was at its highest-ever at 5.99 million tonnes, a rise of 47% y-o-y, while the consolidated crude steel production stood at 5.81 million tonnes, which was also the highest-ever with an increases of 38% y-o-y.

### Nykaa's profit down 49% YoY



FSN E-COMMERCE Ventures, the parent company of online beauty e-commerce platform Nykaa on Friday reported a 49% year-on-year decline in

its consolidated net profit at ₹8.56 crore in Q4FY21, hurt by a surge in expenses. The revenue from operations during the period increased over 31% to ₹973.32 crore. Total expenses rose 35% to ₹978.64 crore. **-FE BUREAU** 


### GAIL net up 40% on higher gas margins

**STATE GAS UTILITY GAIL** India on Friday reported a 40% jump in its March quarter net profit as margins on natural gas sales rose. Net profit in January-March at ₹2,683.11 crore was higher than ₹1,907.67 crore in the same period a year back. Revenue from operations rose to ₹26,968.21 crore

Quarter Ended

from ₹15,549.07 crore in January-

### profit declines 25% **RUCHI SOYA INDUSTRIES** on Friday reported a 25% decline in its standalone net profit to ₹234.33 crore for



Ruchi Soya Q4

the March 2022 quarter, mainly due to higher tax expenses. Its net profit stood at ₹314.33 crore in the year-ago period. The company's total income rose to ₹6,676.19 crore in O4 from ₹4,859.5 crore in the corresponding period of the preceding fiscal.

Amount in Rs. lacs

Year Ended



## SUNDARAM BRAKE LININGS LIMITED

CIN:L34300TN1974PLC006703

Regd Office: Padi, Chennai - 600 050, Tel:044-26257853; Fax: 044-26254770

## AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2022

March 2021.

S. No.	Particulars	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
3374		(Unai	udited)	(Audited)	
1	Total Income from operations	8,223.35	7,697.79	29,839.72	23,812.70
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	140.80	207.57	(213.11)	209.85
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	367.17	207.57	13.27	209.85
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	356.61	178,90	7.77	600.10
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	394.65	199.34	45.81	620.54
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each fully paid up)	393.46	393.46	393.46	393.46
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet			8,669.67	8,623.87
8	Earnings Per Share (EPS) (Face Value-Rs.10/- each ) (not annualised) - in Rs. i) Basic - in Rs. ii) Diluted - in Rs.	9.06 9.06	4.55 4.55	0.20 0.20	15.25 15.25

Note:

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Annual Financial Results are available on the stock exchanges websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website www.tvsbrakelinings.com.

Place: Chennai Date: 27.05.2022

Visit our website : www.tvsbrakelinings.com

On behalf of the Board For SUNDARAM BRAKE LININGS LIMITED KRISHNA MAHESH MANAGING DIRECTOR

### FINE ORGANIC INDUSTRIES LIMITED

Reg Off: Fine House, Anandii street, off M G Road, Ghatkopar (East), Mumbai - 400 077, CIN: L24119MH2002PLC136003 Email: info@fineorganics.com: Web: www.fineorganics.com, Tel.: +91 (022) 21025000, Fax: +91 (022) 21028899

	t i		Standalone	20.	(₹ in Lakhs Consolidated			
Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31" March 2022	Year ended	Quarter ended 31" March 2021	Quarter ended 31" March 2022	Year ended 31" March 2022	Quarter ended 31" March 2021	
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	
1	Total Income from Operations	60,073.15	1,85,842.83	32,169.06	61,686.59	1,87,625.92	32,288.40	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	14,856.40	33,676.72	3,836.37	16,187.37	35,152.77	4,130.07	
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	14,856.40	33,676.72	3,836.37	16,187.37	35,152.77	4,130.07	
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	11,005.20	25,066.93	2,887.27	12,191.79	25,970.91	3,180.06	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	11,129.71	25,338.43	2,971.28	12,316.31	26,242.41	3,264.07	
6	Paid up Equity Share Capital (face value ₹ 5/- each)	1,533.00	1,533.00	1,533.00	1,533.00	1,533.00	1,533.00	
7	Reserves (excluding Revaluation reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		94,316.60	0.000	. Wood on a	94,387.19		
8	Earnings per equity share (face value of ₹5/- each) for continuing and discontinued operations	241144			540000		Operations	
	Basic: (not annualised for the quarter)	35.89	81.76	9.42	39.76	84.71	10.37	
	2. Diluted: (not annualised for the quarter)	35.89	81.76	9.42	39.76	84.71	10.37	

a The above results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 27" May 2022.

b The above is an extract of the detailed format of Statement of Standalone and Consolidated Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed Financial Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 27th May 2022. The full format of the Statement of Standalone and Consolidated Audited Financial Results are available on the Company's website (www.fineorganics.com) and on the websites of National Stock exchange of India Limited (www.nseindia.com), BSE Limited

c The Board of Directors has recommended final dividend on equity shares at the rate of ₹ 9/- per share (face value ₹ 5/- per share) for the year ended 31 March 2022. For and on behalf of the Board of Directors

Managing Director DIN: 00106799

(Mukesh Shah)

# HOVS **HOV Services Limited**

Registered Office: 3rd Floor Sharda Arcade, Pune Satara Road, Bibwewadi, Pune-411037; Phone: 020-24231623; Fax: 020-24221470 website: www.hovsltd.com; email: investor.relations@hovsltd.com; CIN: L72200PN1989PLC014448

STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022 (Re In Lakhe)

	1	STAND	ALONE			CONSO	LIDATED	
Particulars	Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
	Mar 31,2022	Mar 31,2021	Mar 31,2022	Mar 31,2021	Mar 31,2022	Mar 31,2021	Mar 31,2022	Mar 31,2021
	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
Total income from operations (Net)	308.83	253.41	1,140.14	1,061.79	308.83	311,37	1,140.14	1,119.75
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	92.32	79.83	301.01	256.50	92.32	214.79	301.01	314.46
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional items)	(1,602.27)	3,597.50	(6,306.69)	6,325.16	92.32	214.79	301.01	314.46
Net Profit / (Loss) for the period after tax of continuing operations	(1,629.37)	3,576.12	(6,393.52)	6,250.13	65.22	193.41	214.18	239.43
Net Profit / (Loss) for the period after tax of discontinued operations	1	22 <del>5</del>	151	25	(2.90)	1,91	1.53	17.81
Total Comprehensive Income for the period	(1,630.92)	3,581.73	(6,395.07)	6,252.50	(2,026.90)	3,437.46	(6,845.42)	6,266.02
Equity Share Capital	1,259.50	1,258.90	1,259.50	1,258.90	1,259.50	1,258.90	1,259.50	1,258.90
Earnings Per Share - Basic & Diluted (of Rs 10 each)								
Before exceptional item - continuing operations	0.52	0.46	1.70	1.44	0.52	1.53	1.70	1.90
After exceptional item - discontinued operations	(12.93)	28.41	(50.78)	49.65	(0.03)	0.02	0.01	0.14
After exceptional item - continuing & discontinued operation	(12.93)	28.41	(50.78)	49.65	0.49	1.55	1.71	2.04

Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and year ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.hovsltd.com.

Note 2: The above Financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 27, 2022. The Statutory Auditors of the Company have audited the financial results for the guarter and year ended March 31, 2022 in terms of Regulations 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

> Vikram Negi Chairman & Executive Director (DIN:01639441)

For HOV Services Limited

financialexp.epa

Place: Mumbai

Date : 27th May, 2022

**FINE ORGANICS** 

Adfactors 99

Date: May 27, 2022

Place: Pune

New Delhi

try continued to see steady demand from the govern-

7.2% in Q4 FY 2021-22 over the previous quarter," it said in

भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड (CIN No: L74899HR1972PLC006203)

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट 5, सेक्टर 25, बल्लभगढ़, हरियाणा- 121004 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम का सार

<b>क</b> .		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
सं.	विवरण	को समाप्त	को समाप्त	को समाप्त	को समाप्त
		तिमाही	तिमाही	वर्ष	वर्ष
		(अंकेक्षित)	( अंकेक्षित )	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1.	कुल आय	36.62	10.77	167.36	87.04
2.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण मदों से पूर्व)	( 96.27 )	( 94.52 )	(300.27)	( 325.36 )
3.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	( 96.27 )	(94.52)	( 300.27 )	( 325.36 )
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(91.68)	( 90.77 )	(281.88)	(310.37)
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [कर के बाद लाभ/(हानि) को शामिल करके तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	(95.57)	( 95.42 )	( 279.56 )	(315.02)
5.	इक्विटी शेयर पूंजी	231.30	231.30	231.30	231.30
7.	पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त)	_	-	434.48	689.96
3.	आय प्रति शेयर ( 10 रु. प्रति X जारी एवं बंद प्रचालनों के लिए)				
	मूलः	( 3.96 )	(3.92)	(12.19)	( 13.42 )
	तनुकृतः	(3.96)	(3.92)	(12.19)	( 13.42 )

33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण कंपनी की वेबसाईट (http://www.globalbol.com) और बीएसई लि. की वेबसाईट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।

स्थानः कोलकाता दिनांक: 27 मर्ड. 2022

हिर्षिता श्रीवास्तव

एस के शर्मा, अध्यक्ष (DIN:00041150)

मृनल राय

हस्ता/- विशाल कुमार शम

पूर्णकालिक निदेशक

हिते एवे कृते निदेशकों का बोर्ड

(ईपीएस को छोडकर लाखों में

### इंट्रजिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड CIN: U74999DL2013PTC257162

पंजीकृत कार्यालयः 839, भूतल, उपकार कॉलोनी बुरारी गांव, संत नगर दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, डीएल 110065 भारत

सूचना

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत)

एतदृद्वारा सचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अनुसरण में, मेसर्स इंट्रगिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड U74999DL2013PTC257162) द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के वर्तमान पते से #839, भृतल, उपकार कॉलोनी बुराड़ी गांव, संत नगर दिल्ली दक्षिण दिल्ली डीएल 110065, जो कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में है, से तीसरी मंजिल, 16वीं मेन रोड, बीडीए कॉम्प्लेक्स के पीछे, कोरमंगला, बेंगलुरु, कर्नाटक- 560034, जो कंपनी रजिस्टार, कर्नाटक के अधिकार क्षेत्र में है, में स्थानांतरण की पृष्ट के लिए क्षेत्रीय निदेशक कंपनी मामलों के मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली को आवेदन किया जा रहा है।

आगे यह भी सूचना दी जाती है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या निगम इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, कंपनी मामलों के मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को एक पत्र द्वारा क्षेत्रीय निदेशक को इस तरह की आपत्ति की सूचना दे सकता है।

कते इंटगिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

निदेशक निदेशक डीआईएनः 06635303 डिआईएन: 06635287 स्थानः दिल्ली दिनांकः 24 मई, 2022

### कोणार्क कमर्शियल लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः बी.आर. चांडक मार्केट, मारुवाड़ी पट्टी, वार्ड नंबर 6, गुवाहाटी-785001,(असम) ईमेलः konarkcommerciallimited@gmail.com, वेबसाइट: www.konarkcommercial.com मो. नं.: 896116379, CIN NO: L51109AS1988PLC002916

यह विज्ञापन ("विज्ञापन") कंपनी द्वारा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का डीलिस्टिंग) विनियम, 202<sup>.</sup> "डीलिस्टिंग विनियम") के अध्याय VI के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयरों की स्वैच्छिक असूचीबद्धता के संबंध में जारी किय

कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों को मेसर्स मेट्रो कमर्शियल कंपनी लिमिटेड (प्रमोटर एक्वायरर) द्वारा किए गए डीलिस्टिंग ऑफर और अपेक्षित सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति के बाद, एक आवेदन मेटोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एमएसईआई") को 16 मई. 2022 को एमएसईआई से कंपनी के डिक्वटी शेयरों को हटाने के लिए किया था। एमएसईआई ने अपने परिपत्र संख्या एमएसई/एलआईएसटी/11867/2022 दिनांक 26 मई, 2022 के साथ पठित पत्र संख्या एमएसई/एलआईएसटी/2022/665 दिनांक 26 मई, 2022 के माध्यम से सुचित किया है कि कंपनी के इक्विटी शेयरों में 02 जून, 2022 से व्यापार बंद⁄निलंबित कर दिया जाएगा और कंपनी के इक्विटी शेयरों को 09 जून, 2022 ("डीलिस्टिंग की तिथि") से एमएसईआई रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा।

इक्विटी शेयरों को असुचीबद्ध करने का मतलब है कि उनका अब एमएसईआई पर कारोबार नहीं होगा और इक्विटी शेयरों के व्यापार के लिए एक तरल बाजार मौजूद नहीं रहेगा। डीलिस्टिंग के बाद बकाया इक्विटी शेयर

डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 26(1) के अनुसार, कंपनी के शेष सार्वजनिक शेयरधारक जो डीलिस्टिंग प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम नहीं थे या नहीं थे या जिन्होंने डीलिस्टिंग प्रक्रिया में अपने इक्विटी शेयरों को असफल रूप से टेंडर किया था, अपनी इक्विटी की पेशकश प्रमोटर एक्वायरर को शेयर 15/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर ("निकास मल्य") की कीमत पर सभी स्टॉक एक्सचेंजों ("डीलिस्टिंग की तिथि") यानी ("निकास अवधि") से असुचीबद्ध होने की तारीख से शुरू होने वाले एक वर्ष की न्यनतम अवधि के लिए करने में सक्षम होंगे।

इस संबंध में प्रस्ताव पत्र ("निकास प्रस्ताव पेशकश") शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को भेजा जाएगा, जिनका नाम डीलिस्टिंग की तारीख को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है। यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक अपने निकास प्रस्ताव पत्र को प्राप्त नहीं कर रहा है, या खो गया है, तो वे कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर

. शेष शेयरधारकों को विचारार्थ भूगतान किसी भी नियामक अनुमोदन के अधीन, जैसा कि आवश्यक हो सकता है, प्रमोटर एक्वायरर मासिक आधार पर संबंधित महीने के अंत के 10 कार्य दिवसों ("मासिक भुगतान चक्र") के भीतर भुगतान करने का इरादा रखता है। भुगतान केवल उन सार्वजनिक शेयरधारकों को किया जाएगा, जिन्होंने निकास प्रस्ताव पत्र और संलग्न आवेदन फॉर्म ("निकास आवेदन प्रपत्र") में दिए गए निर्देशों का पालन करके अपने डिक्वटी शेयरों को वैध रूप से टेंडर किया है। यह स्पष्ट किया जा रहा है कि पहल

मासिक भुगतान चक्र 30 जुन, 2022 से शुरू होगा।

सभी प्रश्न कंपनी को पंजीकृत कार्यालय के पते पर निर्देशित किए जा सकते हैं। कृते कोणार्क कमर्शियल लिमिटेः 27 मई 2022

वार्ड नंबर 6, गुवाहाटी- 785001, (असम)

बी आर चांडक मार्केट, मारवाड़ी पट्टी,

स्थान : दिल्ली

तिथि : 28.05.2022

continued from previous page.

Category

Category

Anchor

D. Allotment to QIBs (After Technical Rejections)

Equity Shares, which were allotted to 15 successful Applicants.

AIF

91,103

E. Allotment to Anchor Investors (After Technical Rejections)

MFs

5,29,601

Includes spilled over of 5,79,207 Equity Shares from Retail Category.

डीआईएनः 07310503 प्रपत्र सं. आईएनसी-26

### (कंपनी (निगमन) नियमावली 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)

एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार-पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञापन केन्द्र सरकार नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली 2014 के नियम 30 (6) (ए) के मामले में

स्किम्ड (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय

''एफ नं.-203, मोहता बिल्डिंग, 4, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066'' में है, के मामले में आवेदक एतदुद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''एफ नं.-203, मोहता बिल्डिंग, 4, भीकाजी

कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066'' से 1605, रेगस, लेवल 16वां, वर्ल्ड ट्रेड टावर, नोएडा-201301, उ.प्र. में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 19.05.2022 को आयोजित असाधारण आमसभा वार्षिक आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल बिकरें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते : बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा

करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें। कृते एवं के लिये स्किम्ड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड र्डरुदयाराज रिचर्ड जॉनसन निदेशक

3,39,218

approval from BSE and NSE on May 27, 2022, and trading is expected to commence on May 30, 2022.

DIN: 03010082

Flis/FPIs

7.41.761

AIFs

79,713

पंजीकृत कार्यालय का पता: कुमरा नंबर 144, सी-विंग, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली 110001 CIN: L70101DL2005GOI132162 वेबसाइट: www.hpil.co.in

ईमेल :info@hpil.co.in दूरभाष :011-230621325

HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED (A Government of India Enterprise)

हेमीस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के वित्तीय परिणामों का सार

	सम	गप्त तिमाही के 1	समाप्त वर्ष के लिए		
विवरण	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
ACT 10 (100)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)
प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)	- 53	120	8	53	200
कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों से पहले)	(956.96)	(163,04)	(821.85)	(1863.86)	(1008.38)
कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(956.96)	(163.04)	(821.85)	(1863.86)	(1008.38)
कर के बाद सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(579.15)	(163,04)	(608.17)	(1486.05)	(745.34)
करों के बाद कुल व्यापक आय और गैर नियंत्रित ब्याज	(579.15)	(163.04)	(608.17)	(1486.05)	(745.34)
प्रदत्त इक्रिटी शेयर पूंजी	28500	28500	28500	28500	28500
पिछले लेखा वर्ष की बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मूल्पांकन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व	53	issi.	12		
प्रति शेयर आय (संचालन जारी रखने और बंद करने से)	*8	888	98	8	(88)
बेसकि:	(0.20)	(0.06)	(0.21)	(0.52)	(0.26)
डायल्युटिड:	(0.20)	(0.06)	(0.21)	(0.52)	(0.26)

नोट्स:- उपरोक्त 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है. जिसे सेबी (सचीकरण और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किया गया है। उपरोक्त समाप्त तिमाही और वर्ष के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com/ www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.hpil.co.in) पर भी उपलब्ध है।

हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड के लिए और उनकी ओर से हस्ता/-

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 26 मई 2022 (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

# [CIN: L17111DL1982PLC013790]

पंजी. कार्यालय: 325, IIIरा तल, अगरवाल प्लाजा, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 ई-मेलः shreewortex@gmail.com वेबसाईट: www.shreewortex.in, मोबा.: 9315202833

31 मार्च, 2022 का समाप्तीतमाहा एवं वर्ष की लए अकाक्षतीवत्ताय पारणामा की विवरण का सार

क्रम	विवरण		समाप्त तिमाही		समाप	त वर्ष
सं.		01.01.2022 से	01.10.2021 से	01.01.2021 से	01.04.2021 से	01.04.2020 से
		31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
1.	परिचालनों से कुल आय	7.32	31.94	44.60	228.18	104.61
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व )	(67.04)	9.56	10.70	123.56	53.93
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद )	(67.04)	9.56	10.70	123.56	53.93
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद )	(54.66)	7.04	7.50	105.48	48.40
5.	अविध हेतु कुल व्यापक आय (अविध हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	(57.88)	7.04	65.75	(47.83)	159.22
6.	इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00
7.	आरक्षित (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	259.03	259.03	99.81	259.03	99.81
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)					
	मूल :	(1.74)	0.22	0.24	3.36	1.54
	तरल :	(1.74)	0.22	0.24	3.36	1.54


टिप्पणी: 1) 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के उपरोक्त अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट किमटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 26 मई, 2022 को आयोजित बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये।

2) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। इन वित्तीय परिणामों का सम्पर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंजों की वेबसाईट अर्थात मेटोपॉलिटन स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.msei.in), बीएसई लिमिटेड वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् (www.shreeworstex.in) पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से श्री वर्स्टेक्स लिमिटेड

हस्ता./-पवन कुमार मित्तल (निदेशक) तिथि: 26.05.2022

स्थान: नई दिल्ली DIN: 00749265



पर्जी. कार्यालयः एडब्ल्युएफ आईएस, प्रथम तल, ए-24/9, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, मथुरा रोड, साहिबाबाद, नई दिल्ली-110044 Email: investors@e2enetworks.com, Website: www.e2enetworks.com 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अंकेक्षित परिणामों का विवरण (जब तक अन्यथा वर्णित नहीं से, आईएनआर लाखों मे)

क्रम सं.	विवरण	सम	ाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
		31.3.2022 अनंकेक्षित (टिप्पणी 1)	31.12.2021 अनंकेक्षित (टिप्पणी 1)	31.3.2021 अनंकेक्षित (टिप्पणी 1)	31.3.2022 अंकेक्षित	31.03.2021 अंकेक्षित
I.	प्रचालनों से राजस्व	1416.47	1,368.14	1,010.76	5,187.34	3,530.26
тт	अन्य आय	11.52	3.46	14.99	35.51	95.54
II.	कुल राजस्व (1+11)	14,27.99	1,371.60	1,025.75	5,222.85	3,625.80
III. IV.	खर्चें	354.46	357.91	341.66	1,441.21	1,273.02
1 V.	सेवाओं तथा कंज्यूमैबल्स का क्रय कर्मचारी लाभ व्यय	279.45	244.37	234.34	1,015.46	870.21
	मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	554.81	508.41	445.06	1,782.64	1,235.77
	वित्त लागत	5.48	3.84	11.22	18.60	17.92
	अन्य खर्चे	146.27	92.90	75.47	436.34	352.99
	कुल खर्चे (IV)	1340.47	1,207.43	1,107.75	4,694.25	3,749.91
V.	विशिष्ट मदों तथा कर से पूर्व लाभ/(हानि)(III+IV) व्यय	87.52	164.17	(82.00)	528.60	(124.11)
VI.	विशिष्ट मदों	97.53	164.17	-	528.60	(124.11)
VII.	कर से पूर्व लाभ/(हानि)(V+VI)	87.52	164.17	(82.00)	328.60	_
VIII.	कर व्यय	_		(02.00)		
	क) चालू कर	(444.50)	_		(116.50)	_
	ख) आस्थिगित कर	(166.50)	-		645.10	(124.11)
IX. X	कर से पश्चात अवधि/वर्ष के लिये लाभ/(हानि)(VII+VIII) अन्य व्यापक आय	204.02	164.17	(82.00)	645.10	
^	क)i)ऐसी मदें जो लाभ अथवा हानि में पुनवर्गीकृत की जाएगी ii)ऐसी मदों से संबंधित आय कर जो लाभ अथवा हानि में	651.98	-	157.98	651.98	157.98
	पुनवर्गीकृत नहीं की जाएगी	164.09	_		(164.09)	(31.64)
	जुनवनाकृत नहां का जाएना ख) i)ऐसी मदें जो लाभ अथवा हानि में पुनवर्गीकृत की जाएगी	-		(31.64)		_
	ii)ऐसी मदों से संबंधित आयकर जो लाभ अथवा हानि में	-	-	-		
	पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएगी				-	-
XI.	अविध/वर्ष के लिये कुल व्यापक आय (IX+X) अविध/वर्ष के		-	-		
Λ1.	लिये लाभ/हानि तथा अन्य व्यापक कार्य से शामिल	691.91	164.17	44.34	1,132.99	2.23
XII.	प्रति इक्विटी शेयर आय/हानि	1.41	1.13	(0.57)	4.46	(0.86)
	1)मूल	1.40	1.13	(0.57)	4.44	(0.86)
	- \			the state of the s		

### 2)तरल टिप्पणी:

तिथि: 27 मई, 2022

**OTHs** 

Total

12,56,232

Allotment to QIBs, who have bid at the Offer Price of ₹ 878 per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with BSE. This category has been

subscribed to the extent of 1.00000 times of Net QIB portion. As per the SEBI Regulations, Mutual Funds were allotted 5% of the Equity Shares of Net QIB portion available i.e., 62,812

Equity Shares (including unsubscribed portion of Retail category) and other QIBs and unsatisfied demand of Mutual Funds were allotted the remaining available Equity Shares i.e. 11,93,420 Equity Shares (including unsubscribed portion of Retail category) on a proportionate basis. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 12,56,232.

84,150

The Company in consultation with the BRLMs have allocated 16,13,725 Equity Shares to 9 Anchor Investors (through 9 Anchor Applications) at the Anchor Investor Offer Price of

₹878 per Equity Share in accordance with the SEBI ICDR Regulations. This represents 60% of the QIB Portion, of the initial Offer size as envisaged at the time of Bid/Offer opening.

The IPO Committee of our Company at its meeting held on May 26, 2022, has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange,

being BSE and has allotted the Equity Shares to various successful Bidders. The Allotment Advice Cum Refund Intimation will be dispatched to the address of the investors as

payments to non-syndicate brokers have been issued on May 26, 2022. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Offer at the address

account details with the depositories concerned. The Company has filed the Listing application with BSE and NSE on May 26, 2022. The Company has received listing and trading

16,13,725

FPI/FIIs

10,04,411

ा. उपरोक्त सेवी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल समाप्त तिताही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामें के विस्तृत प्रारूप का सार है। समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणमों का सम्पूर्ण प्रारुप कम्पनी की वेबसाईट www.e2enetworks.com तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

2. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के उक्त अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट किमटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 27 मई, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये। इन वित्तीय परिणामों पर सांविधिक अंकेक्षिक ने अ-संशोधित ऑडिट के अभिमत प्रकट किये है।

ई2ई नेटवर्क्स लिमिटेड के लिये श्रुष्टि बवेजा स्थानः नोएडा

DIN:08057000

# MODIPON LIMITED

Regd. Office: Hapur Road, Modinagar, Ghaziabad -201 204 (UP) CIN: L65993UP1965PLC003082 Phone: (01232) 243471; E-mail: modipon@modimangal.in Website: www.modipon.net Extract of Standalone Audited Financial Results for the Quarter & Twelve Months ended 31" March, 2022

ei			Quarter ende	d	nine months ended	Year ended		
SI. No	Particulars	31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	
1	Total income from operations (net)	0.00	132.65	0.01	136.05	136.05	133.21	
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax and Exceptional items	(13.66)	112.38	(16.42)	79.81	66.15	58.19	
3	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax (before Exceptional items)	(13.66)	112.38	(16.42)	79.81	66.15	58.19	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(13.66)	112.38	(16.42)	79.81	66.15	58.19	
5	Total comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(13.66)	112.38	(16.42)	79.81	66.15	58.19	
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs 10/- each	1157.67	1,157.67	1,157.67	1,157.67	1,157.67	1,157.67	
7	Earnings Per Share (before Exceptional items) of Rs 10/- each Basic (Rs): Diluted (Rs):	(0.12) (0.12)	0.97 0.97	(0.14) (0.14)	0.69 0.69	0.57 0.57	0.50 0.50	
8	Earnings Per Share (after exceptional items) of Rs 10/- each Basic (Rs): Diluted (Rs):*	(0.12)	0.97 0.97	(0.14)	0.69 0.69	0.57 0.57	0.50 0.50	

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Yearly Financial Results are available on the Company's Website at www.modipon.in and also be accessed on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com. For & on behalf of Board of Directors

> (Manish Modi) **Managing Director** DIN 00030036

ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों का विवरण

पंजीकृत कार्यालयः ए-23, मंदाकिनी एन्क्लेव, अलकनंदा, नई दिल्ली-110019 सीआईएनः L93000DL1988PLC031953, निवेशकों के लिए ईमेल आईडीः trinityleague@trinitygroup.ind.in, सम्पर्क नं. **0120–4712800, 802** 

क्र. सं.	विवरण	समाप्त ।तमाहा 31.3.2022 (लेखापरीक्षित)	समाप्त ।तमाहा 31.12.2021 (अलेखापरीक्षित)	31.3.2022	समाप्त वष 31.03.2022 (लेखापरीक्षित)	समाप्त वष 31.03.2021 (लेखापरीक्षित
1	आय (क) प्रचालनों से राजस्व	79.91	79.53	54.53	178.99	76.35
	(ख) अन्य आय	1.34	(3.36)	(6.16)	1.55	19.86
	कल आय (क+ख)	81.34	(76.17)	60.69	180.54	96.21
2	व्यय	01.01	(/6////	00.07	100.01	70121
	(क) कर्मचारी लागत	5.62	6.01	5.73	19.84	21.48
	(ख) वित्त लागत	4.45	1.76	1.25	10.18	6.00
	(ग) ह्वास एवं परिशोधन व्यय	4.39	1.79	1.99	9.76	7.01
	(घ) अन्य व्यय	6.97	91.95	12.86	132.23	43.81
	कुल व्यय	21.43	101.51	21.83	172.01	78.30
3	आपवादिक मदों एवं कर पूर्व लाभ / (हानि) (1–2)	59.91	(25.34)	38.86	8.53	17.91
4	आपवादिक मदें		-		- 1	_
5	कर पूर्व लाभ / (हानि) (3–4)	59.91	(25.34)	38.86	8.53	17.91
6	कर व्ययः					
	चालू कर	0.37	-	3.36	0.37	3.36
	पूर्व वर्षों के लिये चालू कर	(0.03)	-	-	(0.03)	-
	आस्थगित कर	(0.39)	-	0.16	(0.39)	(0.16)
7	अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (5—6)	59.96	(25.34)	35.34	8.58	14.39
8	अन्य व्यापक आय					
	(1) मदें जो लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगी (करों का निवल)	-	-	(2.32)	(0.47)	(2.32)
	(2) मदें जो लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत होंगी (करों का निवल)	-	-	-	-	-
9	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (7+8)	59.96	(25.34)	(33.02)	8.11	12.07
10	चुकता समता अंश पूंजी (रु. 10/— प्रत्येक का अंकित मूल्य)	506.69	506.69	506.69	506.69	506.69
11	अन्य इक्विटी	-	-	- 1	(210.86)	(218.97)
12	आय प्रति अंश (रु. 10 / — प्रत्येक का) (अवार्षिकीकृत)ः					
	(क) मूल	1.18	(0.50)	0.70	0.17	0.28
	(ख) तरल	1.18	(0.50)	0.70	0.17	0.28

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

J					(O1183	TOIL GIGIT
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.3.2022	समाप्त तिमाही 31.12.2021	समाप्त तिमाही 31.3.2021	समाप्त वर्ष 31.03.2022	समाप्त वर्ष 31.03.2021
L		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	आय					
	(क) प्रचालनों से राजस्व	79.91	79.53	54.53	178.99	76.35
	(ख) अन्य आय	1.34	(3.36)	6.16	1.55	19.86
	कुल आय (क+ख)	81.34	76.17	60.69	180.54	96.21
2	व्यय					
	(क) कर्मचारी लागत	5.62	6.01	5.73	19.84	21.48
	(ख) वित्त लागत	4.45	1.76	1.25	10.18	6.00
	(ग) हास एवं परिशोधन व्यय	4.39	1.79	1.99	9.76	7.01
	(घ) अन्य व्यय	6.97	91.95	12.86	132.23	43.81
	कुल व्यय	21.43	101.51	21.86	172.01	78.30
3	ऑपवादिक मदों, कर तथा एसोसिएट में लाभ / (हानि) के अंश से पूर्व	59.91	(25.34)	38.86	8.53	17.91
	लाभ / (हानि) (1—2)					
4	समता विधि का उपयोग करने हेतू गणनाकृत एसोसिएट में लाभ / (हानि)	76.24	(75.59)	(23.84)	12.21	(63.70)
	का अंश		, ,			' '
5	आपवादिक मदों एवं कर पूर्व लाभ / (हानि) (3+4)	136.15	(100.93)	15.02	20.74	(45.79)
6	आपवादिक मदें—व्यय	_		-	_	
7	कर पूर्व लाभ / (हानि) (5–6)	136.15	(100.93)	15.02	20.74	(45.79)
8	कर व्ययः		()			(,
ľ	चालू कर	0.37	_	3.36	0.37	3.36
	पूर्व वर्षों के लिये चालू कर	(0.03)	_	-	(0.03)	-
	आस्थिगित कर	(0.39)	_	0.16	(0.39)	0.16
9	अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (7-8)	136.20	(100.93)	11.50	20.79	(49.31)
10	अन्य व्यापक आय	130.20	(100.757	11.50	20.77	(1).517
<b>1</b> '0	(1) मदें जो लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगी (करों का निवल)	_	_	(2.32)	(0.47)	(2.32)
	(2) मदें जो लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत होंगी (करों का निवल)		_	(2.32)	(0.47)	(2.52)
11	अवधि हेतू कुल व्यापक आय (7+8)	136.20	(100.93)	9,18	20.32	(51.63)
	चुकता समता अंश पूंजी (रु. 10/— प्रत्येक का अंकित मूल्य)	506.69	506.69	506.69	506.69	506.69
12	विकता समता अश पूजा (रु. १०७ — प्रत्यक का आकत मूल्य) अन्य इक्विटी	300.09	300.09	300.09	(259.67)	(279.99)
13		-	_	_	(239.07)	(2/3.39)
14	आय प्रति अंश (रु. 10 / – प्रत्येक का) (अवार्षिकीकृत)ः	3.60	(100)	0.23	0.41	(0.07)
	(क) मूल	2.69	(1.99)		0.41	(0.97)
	(ख) तरल	2.69	(1.99)	0.23	0.41	(0.97)

टिप्पणियां: 1) उपरोक्त परिणामों की लेखा-परीक्षक समिति द्वारा समीक्षा की गई है तथा परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा 27 मई, 2022 को आयोजित की गई अपनी बैठक

2) कंपनी के संवैधानिक लेखा—परीक्षकों ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 यथा—संशोधित विनियम 33 के अंतर्गत अपेक्षितानुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।

3) चुंकि कंपनी एक खण्डवार में प्रचालन करती है अतः कोई भी खण्डवार प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है। 4) 31 मार्च, 2022 तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के आंकडे सम्पूर्ण वित्त वर्ष तथा संशोधित वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक तिथि तक अनंकक्षित वर्ष

्रप्रकाषित आंकडे के संदर्भ में अंकेक्षित आंकडों के बीच संतुलक आंकडे हैं जो सीमित समीक्षा के अधीन है। 5) पूर्ववर्ती वर्ष/अवधियों के आंकड़ों को, चालु अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए, जहां कहीं अभी अनिवार्य समझा गया है, पुनर्समृहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया

कृते ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड

दिनांक: 27 मई, 2022 स्थानः नोएडा

Place: New Delhi

Date: 27-05-2022

(डी. थारा)

### MEGA NIRMAN & INDUSTRIES LIMITED CIN: L70101DL1983PLC015425

Regd. Off.: A-6/343B, 1st Floor, Paschim Vihar, New Delhi-110063 Contact No.: 011-49879687, E-mail Id:secretarial.mnil@gmail.com

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31"MARCH, 2022 (Amount in Lakhs except EPS)

PARTICULARS	Quarter Ended March	Quarter Ended December	Quarter Ended March	LOUGHOUS CONTROL VONCE TO AND	Year ended 31" March,
	31, 2022 Audited	31, 2021 Un-Audited	31, 2021 Audited	2022 Audited	2021 Audited
Total income from operations	20.65	6.52	6.04	40.99	30.22
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax/after tax & Exceptional & Extraordinary items & other comprehensive income)	9.53	1.20	(4.87)	7.19	4.56
Equity Share Capital	334.75	334.75	334.75	334.75	334.75
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-		1) <del>1</del>	*	
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -  1. Basic (Rs.)  2. Diluted (Rs.)	0.28	0.04	(0.15)	0.21	0.14

- 1. The Audited Financial Results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards("Ind AS") notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016.
- The Above Audited Financial Results reviewed by the Audit Committee, were approved by the Board of Directors at their Meeting held on May 27, 2022 3. The Company does not have any Exceptional or Extraordinary items to report for the above period.

4. The Previous period's figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary to make them comparable. The figures for the Quarter ended 31st March, 2022/2021 are balancing figures between the Audited figures of full year and reviewed figures upto 31st December, 2021. 5. The above is an extract of the detailed format of Quarter/ year ended Financial Results Filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016. The full format of the Quarterly and year ended financial results are available on the website of the stock exchange i.e. www.bseindia.com and of the Company Mega Nirman & Industries Limited

Mohan Jagdish Agarwal (Director) DIN: 07627568

(आईएनआर लाख मे

डीआईएन: 0043764

Place: New Delhi Date: 27.05.2022

निदेशक-

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Offer quoting full name of the First/ Sole applicant, Serial number of the ASBA form, number of Equity Shares bid for, Bidders DP ID, Client ID, PAN, date of submission of the Bid cum Application Form, address of the Bidder, the name and address of the Designated Intermediary where the Bid cum Application form was submitted by the Bidder and Copy of the Acknowledgment slip received from the Designated intermediary and name of the Member of the Syndicate, place where the bid was submitted and payment details at the address given below:

# KFINTECH

Selenium, Tower B, Plot No- 31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareedi 500 032, Telangana Tel: +91 40 6716 2222/ 180034 54001; E-mail: ethosItd@kfintech.com; Investor grievance e-mail: einward.ris@kfintech.com; Website: www.kfintech.com; Contact person: M Murali Krishna; SEBI Registration No.: INR000000221

For ETHOS LIMITED On behalf of the Board of Directors

Company Secretary & Compliance Officer

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS

ETHOS LIMITED has filed the Prospectus with the RoC on May 25, 2022 and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The Prospectus shall be available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the websites of the BRLMs, Emkay Global Financial Services Limited at www.emkayglobal.com and InCred Capital Wealth Portfolio Managers Private Limited at www.nseindia.com and the website of the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and the website of the BSE Limited at www.bseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, see "Risk Factors" on page 39 of the Prospectus. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for any investment decision.

This announcement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act or an exemption from such registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company or the Selling Shareholders and that will contain detailed information about the Company and CONCEPT

INVESTORS PLEASE NOTE

These details of the Allotment made has been hosted on the website of Registrar to the Offer, KFIN TECHNOLOGIES LIMITED at www.kfintech.com.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated May 25, 2022 filed with the Registrar of Companies, Himachal Pradesh at Union Territory of Chandigarh (RoC).

registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been issued for unblocking of funds and transfer to the Public Offer Account on May 25, 2022 and the given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees have been uploaded on May 26, 2022 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the

Place: Chandigarh

Date : May 27, 2022

PROSPECTS OF ETHOS LIMITED.

management, as well as financial statements. However, no offering of securities in the United States is contemplated.